

BUILDING B	SCALE	DRG. NO - 5 / 11
	1:100	
	GR.FL,1ST FL,TYPICAL FL	
AS PER 1.80 FSI		

OPENING SCHEDULE		
TYPES	MARK	SIZE IN MT
DOOR	D	1.22 X 2.21
DOOR	D1	0.91 X 2.21
DOOR	D2	0.75 X 2.21
WINDOW	W	1.83 X 1.83
WINDOW	W2	1.22 X 1.07
SLIDING DOOR	SD	2.79 X 2.21
VENTILATION	V	0.60 X 1.20




COLOUR NOTES:-	
PROPOSED WORK SHOWN IN RED	
R.W.P SHOWN IN BLUE	
FIRE SAFTY SHOWN IN RED	
DRAINAGE SHOWN IN RED DOTTED	

NOTE:-
F.H= FIRE HYDRANT
FIRE BOX
 * 4" DIA WET RISER
 * 15 MT. HOSE REEL
 * FIRE EXINGUSHER

Development permission is granted to the condition that it shall be the responsibility of the applicant and his Architect/Engineer/Surveyor/Structural designer, to follow the relevant I. S specification in structural design to ensure safety of the buildings and as such structural designs are not verified Unless renewed the validity of this Permission expires on Dt. 10/08/17

Permission for sub division/amalgamation/development as sanctioned by Commissioner under the provisions of the Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1979 of the Bombay provisional Municipal Corporation Act, 1949 is granted for the Land bearing S-8-NG/6/S.N.No./F.P.No. 99 (PART-A) of Ward No./Moleja/T.P.S.No. 2, Dahanu District of Dahanu Taluka, District of Dahanu as per the attached plans and permission letter (Rajalchichti) vide outward No.T.D.O./DPD/ 255 dated 12.03.16.

Date-12/08/2016
Town Planner,
Surat Municipal Corporation



Kings Hill
ARCHITECT
41 श्री लाभ अकिटिक्ट्स
AR. LABHU VADHANIA
BARCH, FPA, AIA, CMAA-REG.
GOVT. APPROVED. VALUER
701, & K. TOWER, KING ROAD, SURAT-365 001. INDIA
TELE FAX: 0261-2634422

OWNER

कक्षा के सदस्यों का नामांकन करने के लिए
 १. कक्षा के सदस्यों का नामांकन
 २. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ३. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ४. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ५. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ६. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ७. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ८. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 ९. विद्यार्थी के नामांकन के लिए
 १०. विद्यार्थी के नामांकन के लिए

BUILDING B	SCALE	DRG. NO - 6 / 11
	1:100	
	11TH FL., 12TH FL., TERRACE FL PLAN	
AS PER 1.80 FSI		

COLOUR NOTES:-	
PROPOSED WORK SHOWN IN RED	
R.W.P SHOWN IN BLUE	
FIRE SAFTY SHOWN IN RED	
DRAINAGE SHOWN IN RED DOTTED	

Development permission is granted to the condition that it shall be the responsibility of the applicant and his Architect/Engineer/Surveyor/Structural designer, to follow the relevant I. S specification in structural design to ensure safety of the buildings and as such structural designs are not verified Unless renewed the validity of this Permission expires on Dt. 10/03/17

Permission for sub division/amalgamation/development as Sanctioned by Commissioner under the provisions of the Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976 and the Bombay provisional Municipal Corporation Act, 1949 is granted for the Land bearing G- 8; No./R.S.No./F.P.No. 99 (PART-A) of Ward No./Moje/T.P.S.No. 54 (Grahda) as per the attached plans and permission letter (Rajachithi) vide No.T.D.O./DP/ 54 dated, 12.08.1986

11TH FLOOR PLAN (+30.10 MT LVL)

**OWNER**[illegible]